

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 607]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 22 दिसम्बर 2014—पौष 1, शक 1936

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

“निर्वाचन भवन”

58, अरेरा हिल्स, भोपाल (म. प्र.)—462011

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1551.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगरपालिका परिषद्, आष्टा, जिला सीहोर के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :—

| क्रमांक | नगरपालिका परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित | पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद | वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु अंकों में | केवल शब्दों में | निर्वाचित व्यक्ति का नाम | दल से सम्बद्धता |
|---------|---|----------------------------|--|-----------------|--------------------------|-----------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1 | नगरपालिका परिषद्, आष्टा, जिला सीहोर. | अध्यक्ष | - | - | कैलाश परमार | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
| 2 | | पार्षद | 1 | एक | सीमा धनरूपमल जैन | भारतीय जनता पार्टी |
| 3 | | पार्षद | 2 | दो | राधिका अनिल मल्ला | निर्दलीय |
| 4 | | पार्षद | 3 | तीन | सावित्री घनश्याम जांगडा | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
| 5 | | पार्षद | 4 | चार | शबाना बी सईद टेलर | निर्दलीय |
| 6 | | पार्षद | 5 | पांच | अयाज पठान | निर्दलीय |
| 7 | | पार्षद | 6 | छः | शाहरूख कुरैशी पटेल | भारतीय जनता पार्टी |
| 8 | | पार्षद | 7 | सात | सुभाष नामदेव | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
| 9 | | पार्षद | 8 | आठ | शफीक आतु मौलाना | इंडियन नेशनल कांग्रेस |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|-----|-----|--------|-----|---------|---------------------|-----------------------|
| 10 | | पार्षद | 9 | नौ | खालिद पठान | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
| 11 | | पार्षद | 10 | दस | भूरू भाई | भारतीय जनता पार्टी |
| 12 | | पार्षद | 11 | ग्यारह | फोजिया जाहिद गुड्डू | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
| 13 | | पार्षद | 12 | बारह | अनीता कालू भट्ट | भारतीय जनता पार्टी |
| 14 | | पार्षद | 13 | तेरह | अंसार | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
| 15 | | पार्षद | 14 | चौदह | बाबूलाल मालवीय | भारतीय जनता पार्टी |
| 16 | | पार्षद | 15 | पन्द्रह | मानकुंवर भगवतसिंह | भारतीय जनता पार्टी |
| 17 | | पार्षद | 16 | सोलह | अर्चना पंकज यादव | भारतीय जनता पार्टी |
| 18 | | पार्षद | 17 | सत्रह | नरेन्द्र कुशवाह | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
| 19 | | पार्षद | 18 | अट्ठारह | मंजू अनिल धनगर | इंडियन नेशनल कांग्रेस |

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(गिरीश शर्मा)

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1552.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद्, रेहटी, जिला सीहोर के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :-

| क्रमांक | नगर परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित | पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद | वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु | निर्वाचित व्यक्ति का नाम | दल से सम्बद्धता | |
|---------|-------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| (1) | (2) | (3) | अंकों में शब्दों में | (6) | (7) | |
| 1 | नगर परिषद्, रेहटी, जिला सीहोर. | अध्यक्ष | - | सुनिता हरिनारायण चौहान | भारतीय जनता पार्टी | |
| 2 | | पार्षद | 1 | एक | अनीता विनीत माहेश्वरी | भारतीय जनता पार्टी |
| 3 | | पार्षद | 2 | दो | अनिल जिराती | भारतीय जनता पार्टी |
| 4 | | पार्षद | 3 | तीन | रीना प्रेमनारायण | भारतीय जनता पार्टी |
| 5 | | पार्षद | 4 | चार | महेश कुमार हरियाले | भारतीय जनता पार्टी |
| 6 | | पार्षद | 5 | पांच | भगवत सिंह ठाकुर | भारतीय जनता पार्टी |
| 7 | | पार्षद | 6 | छः | राधा शिव चौहान | भारतीय जनता पार्टी |
| 8 | | पार्षद | 7 | सात | गोविन्द पाण्डेय | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
| 9 | | पार्षद | 8 | आठ | संगीता हरेन्द्र सिंह | भारतीय जनता पार्टी |
| 10 | | पार्षद | 9 | नौ | जितेन्द्र चौहान | भारतीय जनता पार्टी |
| 11 | | पार्षद | 10 | दस | शमीम वेग | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
| 12 | | पार्षद | 11 | ग्यारह | शवनम हनीफ मो. | भारतीय जनता पार्टी |
| 13 | | पार्षद | 12 | बारह | पुष्पा दिलीप मंगतानी | निर्दलीय |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|-----|-----|--------|-----|---------|---------------------------|-----------------------|
| 14 | | पार्षद | 13 | तेरह | मोहन शर्मा | भारतीय जनता पार्टी |
| 15 | | पार्षद | 14 | चौदह | मंजू बट्टी प्रसाद | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
| 16 | | पार्षद | 15 | पन्द्रह | दीपक कुमार भिलाला चायवाला | भारतीय जनता पार्टी |

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(गिरीश शर्मा)

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1553.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद्, कोठरी, जिला सीहोर के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :—

| क्रमांक | नगर परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित | पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद | वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु अंकों में | शब्दों में | निर्वाचित व्यक्ति का नाम | दल से सम्बद्धता |
|---------|-------------------------------------|----------------------------|--|------------|------------------------------|-----------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1 | नगर परिषद्, कोठरी, जिला सीहोर. | अध्यक्ष | - | - | रुपेश पटेल | भारतीय जनता पार्टी |
| 2 | | पार्षद | 1 | एक | देवबगस | निर्दलीय |
| 3 | | पार्षद | 2 | दो | श्रीमति सीमा मुकेश भेन्डी | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
| 4 | | पार्षद | 3 | तीन | श्याम बाई पति नेपालसिंह | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
| 5 | | पार्षद | 4 | चार | मंजु लखनलाल पार्षद | भारतीय जनता पार्टी |
| 6 | | पार्षद | 5 | पांच | बलराम तोमर | निर्दलीय |
| 7 | | पार्षद | 6 | छः | राधेश्याम राणा | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
| 8 | | पार्षद | 7 | सात | श्रीमति अनिता देवकरण बकोरिया | निर्दलीय |
| 9 | | पार्षद | 8 | आठ | सुनील कैलिया | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
| 10 | | पार्षद | 9 | नौ | भगवान फौजदार | भारतीय जनता पार्टी |
| 11 | | पार्षद | 10 | दस | मनीषा मानक जैन | भारतीय जनता पार्टी |
| 12 | | पार्षद | 11 | ग्यारह | मदनलाल वर्मा | निर्दलीय |
| 13 | | पार्षद | 12 | बारह | चन्द्रसिंह आडाखेंडी | भारतीय जनता पार्टी |
| 14 | | पार्षद | 13 | तेरह | श्रीमति पिंकी महेन्द्र वर्मा | भारतीय जनता पार्टी |
| 15 | | पार्षद | 14 | चौदह | लाडसिंह मालवीय | भारतीय जनता पार्टी |
| 16 | | पार्षद | 15 | पन्द्रह | दुर्गा रमेश मालवीय | भारतीय जनता पार्टी |

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(गिरीश शर्मा)

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1554.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद्, बुदनी, जिला सीहोर के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :—

| क्रमांक (1) | नगर परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित (2) | पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद (3) | वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु अंकों में (4) | शब्दों में (5) | निर्वाचित व्यक्ति का नाम (6) | दल से सम्बद्धता (7) |
|----------------|--|--------------------------------------|---|-------------------|---|------------------------|
| 1 | नगर परिषद्, बुदनी, जिला सीहोर. | अध्यक्ष | - | - | पुष्पा विजयसिंह राजपूत | भारतीय जनता पार्टी |
| 2 | | पार्षद | 1 | एक | विमला पत्नी सुनील 'बंटी' | निर्दलीय |
| 3 | | पार्षद | 2 | दो | साहिल खत्री | भारतीय जनता पार्टी |
| 4 | | पार्षद | 3 | तीन | सुनील कुमार पुत्र दुल्हाराम पंजाबी | भारतीय जनता पार्टी |
| 5 | | पार्षद | 4 | चार | जीतेन्द्र मालवीय | निर्दलीय |
| 6 | | पार्षद | 5 | पांच | रानी पुरुषोत्तम यादव | भारतीय जनता पार्टी |
| 7 | | पार्षद | 6 | छः | सतेन्द्र शर्मा पुत्र मंगली प्रसाद शर्मा | भारतीय जनता पार्टी |
| 8 | | पार्षद | 7 | सात | सुधा अनन्त मालवीय | भारतीय जनता पार्टी |
| 9 | | पार्षद | 8 | आठ | गौरा देवी यादव w/o कनीराम यादव | निर्दलीय |
| 10 | | पार्षद | 9 | नौ | उमा बाबू सिंह राजपूत | निर्दलीय |
| 11 | | पार्षद | 10 | दस | खुरम कमाल पटेल | भारतीय जनता पार्टी |
| 12 | | पार्षद | 11 | ग्यारह | रीना ब्रजलाल धुर्वे | भारतीय जनता पार्टी |
| 13 | | पार्षद | 12 | बारह | रजनी हरदयाल सिंह आजाद | भारतीय जनता पार्टी |
| 14 | | पार्षद | 13 | तेरह | भोजकुमार "गुरूजी" | भारतीय जनता पार्टी |
| 15 | | पार्षद | 14 | चौदह | अमर सिंह | भारतीय जनता पार्टी |
| 16 | | पार्षद | 15 | पन्द्रह | जितेन्द्र पुत्र तुलसीराम रिठौरिया | भारतीय जनता पार्टी |

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(गिरीश शर्मा)

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1555.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद्, नसरुल्लागंज, जिला सीहोर के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :—

| क्रमांक (1) | नगर परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित (2) | पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद (3) | वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु अंकों में (4) | शब्दों में (5) | निर्वाचित व्यक्ति का नाम (6) | दल से सम्बद्धता (7) |
|----------------|--|--------------------------------------|---|-------------------|---------------------------------|------------------------|
| 1 | नगर परिषद्, नसरुल्लागंज, जिला सीहोर. | अध्यक्ष | - | - | अनीता राजेश लखेरा | भारतीय जनता पार्टी |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|-----|-----|--------|-----|---------|---------------------------|-----------------------|
| 2 | | पार्षद | 1 | एक | कैलाश धावरे | भारतीय जनता पार्टी |
| 3 | | पार्षद | 2 | दो | ममता महेश मेहरा | भारतीय जनता पार्टी |
| 4 | | पार्षद | 3 | तीन | भगवान सिंह | निर्दलीय |
| 5 | | पार्षद | 4 | चार | ज्योति पंवार रामदीन पंवार | भारतीय जनता पार्टी |
| 6 | | पार्षद | 5 | पांच | तथीहीर आफताब (अत्तु) | भारतीय जनता पार्टी |
| 7 | | पार्षद | 6 | छः | शमीम भाई | भारतीय जनता पार्टी |
| 8 | | पार्षद | 7 | सात | नरेन्द्र माहेश्वरी (गोलू) | भारतीय जनता पार्टी |
| 9 | | पार्षद | 8 | आठ | मो. अशफाक मंसूरी | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
| 10 | | पार्षद | 9 | नौ | भाग्यश्री उर्फ सोनु | भारतीय जनता पार्टी |
| 11 | | पार्षद | 10 | दस | मेहरवान सिंह उर्फ गोलू | भारतीय जनता पार्टी |
| 12 | | पार्षद | 11 | ग्यारह | राजेश पंवार | भारतीय जनता पार्टी |
| 13 | | पार्षद | 12 | बारह | उषा राठोर गुड्डू राठोर | भारतीय जनता पार्टी |
| 14 | | पार्षद | 13 | तेरह | पुष्पा शंकरलाल | भारतीय जनता पार्टी |
| 15 | | पार्षद | 14 | चौदह | सोनू पटेल (हवेली वाले) | निर्दलीय |
| 16 | | पार्षद | 15 | पन्द्रह | आभा मुन्ना दादा अग्रवाल | निर्दलीय |

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(गिरीश शर्मा)

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1556.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद्, इछावर, जिला सीहोर के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :—

| क्रमांक | नगर परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित | पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद | वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु | निर्वाचित व्यक्ति का नाम | दल से सम्बद्धता | |
|---------|-------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|
| (1) | (2) | (3) | अंकों में शब्दों में | (6) | (7) | |
| 1 | नगर परिषद्, इछावर, जिला सीहोर. | अध्यक्ष | - | - | सुमन कृपाल वर्मा | निर्दलीय |
| 2 | | पार्षद | 1 | एक | अनसुईया धरम सिंह | भारतीय जनता पार्टी |
| 3 | | पार्षद | 2 | दो | हिम्मतमल | भारतीय जनता पार्टी |
| 4 | | पार्षद | 3 | तीन | लखन मुकाती | भारतीय जनता पार्टी |
| 5 | | पार्षद | 4 | चार | सितारा बी फारुक अली | भारतीय जनता पार्टी |
| 6 | | पार्षद | 5 | पांच | सोनल मकरैया | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
| 7 | | पार्षद | 6 | छः | सबीला सादिक मोहम्मद | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
| 8 | | पार्षद | 7 | सात | लखन भाई जी | भारतीय जनता पार्टी |
| 9 | | पार्षद | 8 | आठ | कमोद यादव | भारतीय जनता पार्टी |
| 10 | | पार्षद | 9 | नौ | सुनील चाँण्डक | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
| 11 | | पार्षद | 10 | दस | सीमा ओमप्रकाश | भारतीय जनता पार्टी |
| 12 | | पार्षद | 11 | ग्यारह | शारदा नंद किशोर कोली | भारतीय जनता पार्टी |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|-----|-----|--------|-----|---------|-----------------|-----------------------|
| 13 | | पार्षद | 12 | बारह | आकाश पवॉर | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
| 14 | | पार्षद | 13 | तेरह | राधेश्याम वर्मा | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
| 15 | | पार्षद | 14 | चौदह | राकेश उर्फ रिकू | निर्दलीय |
| 16 | | पार्षद | 15 | पन्द्रह | नसरीन चाँद खाँ | भारतीय जनता पार्टी |

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(गिरीश शर्मा)

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1557.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्द्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद्, जावर, जिला सीहोर के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :—

| क्रमांक | नगर परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित | पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद | वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु अंकों में | वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु शब्दों में | निर्वाचित व्यक्ति का नाम | दल से सम्बद्धता |
|---------|-------------------------------------|----------------------------|--|---|-----------------------------|-----------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1 | नगर परिषद्, जावर, जिला सीहोर. | अध्यक्ष | - | - | शैलेश वैध | निर्दलीय |
| 2 | | पार्षद | 1 | एक | कविता राजेन्द्र कुमार भरेवा | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
| 3 | | पार्षद | 2 | दो | सजनबाई फतेह सिंह | भारतीय जनता पार्टी |
| 4 | | पार्षद | 3 | तीन | राजेन्द्र सिंह देवकरण | भारतीय जनता पार्टी |
| 5 | | पार्षद | 4 | चार | असलम कुरेशी | भारतीय जनता पार्टी |
| 6 | | पार्षद | 5 | पांच | राजेन्द्रकुमार सूरजमल भरेवा | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
| 7 | | पार्षद | 6 | छः | पुष्पा अजय सिंह सेठ | भारतीय जनता पार्टी |
| 8 | | पार्षद | 7 | सात | जसपाल सिंह विजय सिंह | निर्दलीय |
| 9 | | पार्षद | 8 | आठ | चिन्ता मेहरवान | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
| 10 | | पार्षद | 9 | नौ | आत्माराम रंजीत सिंह | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
| 11 | | पार्षद | 10 | दस | गुलाब सिंह सैन्धव | भारतीय जनता पार्टी |
| 12 | | पार्षद | 11 | ग्यारह | शिवम् राजकुमार सौनी | भारतीय जनता पार्टी |
| 13 | | पार्षद | 12 | बारह | भारती राजु भावसार | भारतीय जनता पार्टी |
| 14 | | पार्षद | 13 | तेरह | मिठूबाई खुमान सिंह | भारतीय जनता पार्टी |
| 15 | | पार्षद | 14 | चौदह | जाकिर खाँ फजलुददीन | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
| 16 | | पार्षद | 15 | पन्द्रह | शिरीन लियाकत | इंडियन नेशनल कांग्रेस |

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(गिरीश शर्मा)

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1558.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्द्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद्, विजयराघवगढ़, जिला कटनी के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :—

| क्रमांक | नगर परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित | पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद | वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु अंकों में | वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु शब्दों में | निर्वाचित व्यक्ति का नाम | दल से सम्बद्धता |
|---------|-------------------------------------|----------------------------|--|---|----------------------------|-----------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1 | नगर परिषद्, विजयराघवगढ़, जिला कटनी. | अध्यक्ष | - | - | रामकुमार-राकेश गुप्ता | भारतीय जनता पार्टी |
| 2 | | पार्षद | 1 | एक | गिरिजा बाई चौधरी | भारतीय जनता पार्टी |
| 3 | | पार्षद | 2 | दो | रमा संतोष सोनी (कक्का) | भारतीय जनता पार्टी |
| 4 | | पार्षद | 3 | तीन | मीरा हरि ओम बर्मन | भारतीय जनता पार्टी |
| 5 | | पार्षद | 4 | चार | दिनेश कुमार चौधरी | भारतीय जनता पार्टी |
| 6 | | पार्षद | 5 | पांच | अनिल शर्मा उर्फ गुड्डू | भारतीय जनता पार्टी |
| 7 | | पार्षद | 6 | छः | रत्ना ताम्रकार | भारतीय जनता पार्टी |
| 8 | | पार्षद | 7 | सात | शंखी राजू कोरी | निर्दलीय |
| 9 | | पार्षद | 8 | आठ | हेतराम गुप्ता | भारतीय जनता पार्टी |
| 10 | | पार्षद | 9 | नौ | श्रीमती गीता बाई साहू | भारतीय जनता पार्टी |
| 11 | | पार्षद | 10 | दस | संतोष कुमार साहू उर्फ राजू | निर्दलीय |
| 12 | | पार्षद | 11 | ग्यारह | झल्लाराम बर्मन | निर्दलीय |
| 13 | | पार्षद | 12 | बारह | रामजी ताम्रकार | भारतीय जनता पार्टी |
| 14 | | पार्षद | 13 | तेरह | बाला प्रसाद कोल | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
| 15 | | पार्षद | 14 | चौदह | अख्तरी बेगम-इस्तफाक | भारतीय जनता पार्टी |
| 16 | | पार्षद | 15 | पन्द्रह | सियाबाई रामकुमार | भारतीय जनता पार्टी |

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(गिरीश शर्मा)

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1559.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्द्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद्, केमोर, जिला कटनी के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :—

| क्रमांक | नगर परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित | पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद | वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु अंकों में | वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु शब्दों में | निर्वाचित व्यक्ति का नाम | दल से सम्बद्धता |
|---------|-------------------------------------|----------------------------|--|---|--------------------------|--------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1 | नगर परिषद्, केमोर, जिला कटनी. | अध्यक्ष | - | - | गणेश राव | भारतीय जनता पार्टी |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|-----|-----|--------|-----|---------|---------------------------------|-----------------------|
| 2 | | पार्षद | 1 | एक | नीतू | निर्दलीय |
| 3 | | पार्षद | 2 | दो | नजमुनिशा (नजमा भारती) | निर्दलीय |
| 4 | | पार्षद | 3 | तीन | संतोष केवट | भारतीय जनता पार्टी |
| 5 | | पार्षद | 4 | चार | रमेश कुमार | निर्दलीय |
| 6 | | पार्षद | 5 | पांच | अशोक कुमार पिता परदेशी | भारतीय जनता पार्टी |
| 7 | | पार्षद | 6 | छः | वीरेन्द्र सिंह (वीरू) | निर्दलीय |
| 8 | | पार्षद | 7 | सात | शांति देवी | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
| 9 | | पार्षद | 8 | आठ | श्रीमती रूकमणी परौहा | भारतीय जनता पार्टी |
| 10 | | पार्षद | 9 | नौ | विधा दीक्षित | भारतीय जनता पार्टी |
| 11 | | पार्षद | 10 | दस | अजय शर्मा "पप्पु शर्मा" | भारतीय जनता पार्टी |
| 12 | | पार्षद | 11 | ग्यारह | शांति यादव | भारतीय जनता पार्टी |
| 13 | | पार्षद | 12 | बारह | हुस्न बानो मो. हुसैन सदर अंजुमन | निर्दलीय |
| 14 | | पार्षद | 13 | तेरह | संजय जायसवाल अधिवक्ता | भारतीय जनता पार्टी |
| 15 | | पार्षद | 14 | चौदह | अब्दुल जावेद मियादाद | निर्दलीय |
| 16 | | पार्षद | 15 | पन्द्रह | गौरी बाई कोल | भारतीय जनता पार्टी |

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(गिरीश शर्मा)

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1560.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद्, बरही, जिला कटनी के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :—

| क्रमांक | नगर परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित | पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद | वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु | निर्वाचित व्यक्ति का नाम | दल से सम्बद्धता |
|---------|-------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| (1) | (2) | (3) | अंकों में शब्दों में | (6) | (7) |
| 1 | नगर परिषद्, बरही, जिला कटनी. | अध्यक्ष | - | सरस्वती सतीश तिवारी | भारतीय जनता पार्टी |
| 2 | | पार्षद | 1 | सुरेश कुमार सोनी (पंडा) | भारतीय जनता पार्टी |
| 3 | | पार्षद | 2 | माया देवी गोंड | भारतीय जनता पार्टी |
| 4 | | पार्षद | 3 | राज कुमारी वंशकार | भारतीय जनता पार्टी |
| 5 | | पार्षद | 4 | हीरालाल महतेल | भारतीय जनता पार्टी |
| 6 | | पार्षद | 5 | श्री कामता प्रसाद ताम्रकार | भारतीय जनता पार्टी |
| 7 | | पार्षद | 6 | श्रीमति कमली सोनी w/o कछेदी लाल सोनी. | निर्दलीय |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|-----|-----|--------|-----|---------|-----------------------------|-----------------------|
| 8 | | पार्षद | 7 | सात | श्री राजेन्द्र सोनी (बग्घा) | भारतीय जनता पार्टी |
| 9 | | पार्षद | 8 | आठ | गीता वर्मा | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
| 10 | | पार्षद | 9 | नौ | श्री रज्जू कोल | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
| 11 | | पार्षद | 10 | दस | कुसुम साहू/अजय कुमार साहू | भारतीय जनता पार्टी |
| 12 | | पार्षद | 11 | ग्यारह | श्री उत्तम शर्मा | भारतीय जनता पार्टी |
| 13 | | पार्षद | 12 | बारह | श्री केदार प्रसाद (मिस्टर) | भारतीय जनता पार्टी |
| 14 | | पार्षद | 13 | तेरह | रुकमणी बर्मन | निर्दलीय |
| 15 | | पार्षद | 14 | चौदह | शांती बाई | भारतीय जनता पार्टी |
| 16 | | पार्षद | 15 | पन्द्रह | राम बाई/भक्कू सिंह | निर्दलीय |

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(गिरीश शर्मा)

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1561.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद्, रामपुर नैकिन, जिला सीधी के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष/ पार्षद निर्वाचित हुए हैं :-

| क्रमांक | नगर परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित | पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद | वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु | वार्ड क्रमांक केवल अंकों में | निर्वाचित व्यक्ति का नाम | दल से सम्बद्धता |
|---------|-------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------|---|-----------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1 | नगर परिषद्, रामपुर नैकिन, जिला सीधी | अध्यक्ष | - | - | इन्द्रा वीरेन्द्र विश्वकर्मा | निर्दलीय |
| 2 | | पार्षद | 1 | एक | रामबहोर कोल | भारतीय जनता पार्टी |
| 3 | | पार्षद | 2 | दो | कुसुमकली मिश्रा | भारतीय जनता पार्टी |
| 4 | | पार्षद | 3 | तीन | बिनोद सिंह बरगाही | निर्दलीय |
| 5 | | पार्षद | 4 | चार | रामस्वरूप साकेत | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
| 6 | | पार्षद | 5 | पांच | “गीता साहू” | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
| 7 | | पार्षद | 6 | छः | प्रभा सिंह बघेल | निर्दलीय |
| 8 | | पार्षद | 7 | सात | उपेन्द्र प्रसाद तिवारी | भारतीय जनता पार्टी |
| 9 | | पार्षद | 8 | आठ | सुनीता बंसल | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
| 10 | | पार्षद | 9 | नौ | कुलदीप सिंह पिता दिनेश सिंह | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
| 11 | | पार्षद | 11 | ग्यारह | भोला गुप्ता | निर्दलीय |
| 12 | | पार्षद | 12 | बारह | पुरुषोत्तम दास सोनी | निर्दलीय |
| 13 | | पार्षद | 13 | तेरह | शान्ती बाई भुजवा पत्नी श्री वासुदेव भुजवा | भारतीय जनता पार्टी |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|-----|-----|--------|-----|---------|-----------------------|-----------------------|
| 14 | | पार्षद | 14 | चौदह | श्यामकली साकेत | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
| 15 | | पार्षद | 15 | पन्द्रह | मुन्नी अम्बिका मुड़हा | इंडियन नेशनल कांग्रेस |

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
हस्ता./-
(गिरीश शर्मा)
उपसचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1562.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगरपालिका परिषद्, श्योपुर, जिला श्योपुर के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष/ पार्षद निर्वाचित हुए हैं :-

| क्रमांक | नगरपालिका परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित | पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद | वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु | वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु | निर्वाचित व्यक्ति का नाम | दल से सम्बद्धता |
|---------|---|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| (1) | (2) | (3) | अंकों में | शब्दों में | (6) | (7) |
| 1 | नगरपालिका परिषद्, श्योपुर, जिला श्योपुर. | अध्यक्ष | - | - | श्री दौलतराम गुप्ता | निर्दलीय |
| 2 | | पार्षद | 1 | एक | श्री इशरत इदरीस कुरैशी | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
| 3 | | पार्षद | 2 | दो | श्री मुख्तयार कुरैशी | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
| 4 | | पार्षद | 3 | तीन | श्री विशाल सौनी | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
| 5 | | पार्षद | 4 | चार | श्री महावीर प्रसाद | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
| 6 | | पार्षद | 5 | पांच | श्री सलमा आरिफ खिलची | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
| 7 | | पार्षद | 6 | छः | रईसा हसन मुन्शी | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
| 8 | | पार्षद | 7 | सात | श्रीमती कमला कंषाना | भारतीय जनता पार्टी |
| 9 | | पार्षद | 8 | आठ | श्री कस्तूर सिंह गुर्जर | भारतीय जनता पार्टी |
| 10 | | पार्षद | 9 | नौ | श्रीमती सुनीता चतुर्भुज सेन | भारतीय जनता पार्टी |
| 11 | | पार्षद | 10 | दस | श्री राजू उर्फ बन्दी आर्य | भारतीय जनता पार्टी |
| 12 | | पार्षद | 11 | ग्यारह | श्रीमती गीता बाई बैरवा | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
| 13 | | पार्षद | 12 | बारह | श्री जगदीश गर्ग | भारतीय जनता पार्टी |
| 14 | | पार्षद | 13 | तेरह | श्रीमती श्वेता चौहान | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
| 15 | | पार्षद | 14 | चौदह | श्रीमती कमला बाई मुरारी लाल बाथम | भारतीय जनता पार्टी |
| 16 | | पार्षद | 15 | पन्द्रह | श्रीमती रामा राजेश वैष्णव | भारतीय जनता पार्टी |
| 17 | | पार्षद | 16 | सोलह | श्री वसीम (शानू) | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
| 18 | | पार्षद | 17 | सत्रह | श्री महावीर आदिवासी | भारतीय जनता पार्टी |
| 19 | | पार्षद | 18 | अठारह | श्री रोशन राठौर | निर्दलीय |
| 20 | | पार्षद | 19 | उन्नीस | श्री विश्वनाथ (वेदू त्रिपाठी) | भारतीय जनता पार्टी |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|-----|-----|--------|-----|--------|-----------------------------|-----------------------|
| 21 | | पार्षद | 20 | बीस | श्री दीपचन्द रेगर | भारतीय जनता पार्टी |
| 22 | | पार्षद | 21 | इक्कीस | श्रीमती रसीदा बेगम | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
| 23 | | पार्षद | 22 | बाईस | नगीना बेगम भोला कबाडी | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
| 24 | | पार्षद | 23 | तेईस | मो. शकील उर्फ बल्लू पेन्टरी | इंडियन नेशनल कांग्रेस |

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(गिरीश शर्मा)

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1563.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद्, बडोद, जिला श्योपुर के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :—

| क्रमांक | नगर परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित | पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद | वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु अंकों में | शब्दों में | निर्वाचित व्यक्ति का नाम | दल से सम्बद्धता |
|---------|-------------------------------------|----------------------------|--|------------|----------------------------|-----------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1 | नगर परिषद्, बडोद, जिला श्योपुर. | अध्यक्ष | - | - | भारती रितेश तोमर | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
| 2 | | पार्षद | 1 | एक | कमला बाई देवीशंकर पॉचाल | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
| 3 | | पार्षद | 2 | दो | महावीर नागर | भारतीय जनता पार्टी |
| 4 | | पार्षद | 3 | तीन | किशन गोपाल नागर | निर्दलीय |
| 5 | | पार्षद | 4 | चार | मुरारी लाल प्रजापति | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
| 6 | | पार्षद | 5 | पांच | दीपक राज वाल्मिकी | भारतीय जनता पार्टी |
| 7 | | पार्षद | 6 | छः | विष्णु सुमन | निर्दलीय |
| 8 | | पार्षद | 7 | सात | ममता लक्ष्मण शर्मा | भारतीय जनता पार्टी |
| 9 | | पार्षद | 8 | आठ | श्रीमती सीमा विष्णु पंडित | भारतीय जनता पार्टी |
| 10 | | पार्षद | 9 | नौ | दमा बाई नामा | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
| 11 | | पार्षद | 10 | दस | श्रीमति सुशीला प्रजापति | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
| 12 | | पार्षद | 11 | ग्यारह | रामप्रसाद मीणा | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
| 13 | | पार्षद | 12 | बारह | भारत भूषण बैरवा | बहुजन समाज पार्टी |
| 14 | | पार्षद | 13 | तेरह | भरोसीबाई सुमन | भारतीय जनता पार्टी |
| 15 | | पार्षद | 14 | चौदह | घनश्याम आदिवासी | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
| 16 | | पार्षद | 15 | पन्द्रह | श्रीमति सुनिता धनराज माहौर | भारतीय जनता पार्टी |

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(गिरीश शर्मा)

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1564.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद्, विजयपुर, जिला श्योपुर के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :-

| क्रमांक (1) | नगर परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित (2) | पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद (3) | वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु अंकों में (4) | शब्दों में (5) | निर्वाचित व्यक्ति का नाम (6) | दल से सम्बद्धता (7) |
|----------------|--|--------------------------------------|---|-------------------|---|------------------------|
| 1 | नगर परिषद्, विजयपुर, जिला श्योपुर. | अध्यक्ष | - | - | रिंकी/प्रदीप गोटेईया | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
| 2 | | पार्षद | 1 | एक | सीता/विजयसिंह अटेरिया | भारतीय जनता पार्टी |
| 3 | | पार्षद | 2 | दो | सलीमन अजीज | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
| 4 | | पार्षद | 3 | तीन | सम्पतिराम आदिवासी पुत्र चतुरेराम आदिवासी. | भारतीय जनता पार्टी |
| 5 | | पार्षद | 4 | चार | बबलू, अलताव खान | भारतीय जनता पार्टी |
| 6 | | पार्षद | 5 | पांच | सुशीला पत्नी दर्शन राठौर | निर्दलीय |
| 7 | | पार्षद | 6 | छः | होतम कुशवाह | निर्दलीय |
| 8 | | पार्षद | 7 | सात | श्री निवास जाटव | निर्दलीय |
| 9 | | पार्षद | 8 | आठ | आशा दीपक मरैया | निर्दलीय |
| 10 | | पार्षद | 9 | नौ | सुरेन्द्र चन्द अवस्थी | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
| 11 | | पार्षद | 10 | दस | शिवप्रसाद चौहान | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
| 12 | | पार्षद | 11 | ग्यारह | पुष्पा गुड्डू यादव | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
| 13 | | पार्षद | 12 | बारह | रचना श्यामसुन्दर | निर्दलीय |
| 14 | | पार्षद | 13 | तेरह | राधेश्याम मंगल | भारतीय जनता पार्टी |
| 15 | | पार्षद | 14 | चौदह | राजकुमारी बन्टी कुशवाह | बहुजन समाज पार्टी |
| 16 | | पार्षद | 15 | पन्द्रह | भगवती शाक्य पत्नी भगवंत शाक्य | भारतीय जनता पार्टी |

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(गिरीश शर्मा)

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1565.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद्, मल्हारगढ़, जिला मन्दासौर के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :-

| क्रमांक (1) | नगर परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित (2) | पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद (3) | वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु अंकों में (4) | शब्दों में (5) | निर्वाचित व्यक्ति का नाम (6) | दल से सम्बद्धता (7) |
|----------------|--|--------------------------------------|---|-------------------|---------------------------------|------------------------|
| 1 | नगर परिषद्, मल्हारगढ़, जिला मन्दासौर. | अध्यक्ष | - | - | दिनेश - भेरूलाल प्रजापति | भारतीय जनता पार्टी |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|-----|--|--------|-----|---------|--------------------------------------|-----------------------|
| 2 | नगर परिषद्, मल्हारगढ़, जिला मन्दासौर. | पार्षद | 1 | एक | हसीना बी जहाँगीर खॉन टेलर | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
| 3 | | पार्षद | 2 | दो | दिलीप पिता नन्दलाल तिवारी | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
| 4 | | पार्षद | 3 | तीन | गिरीजा कुंवर W/o प्रतापसिंह सोलंकी | भारतीय जनता पार्टी |
| 5 | | पार्षद | 4 | चार | कोशल्याबाई शंभुलाल सुथार | भारतीय जनता पार्टी |
| 6 | | पार्षद | 5 | पांच | साया बी W/o अय्युब खॉ मेव | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
| 7 | | पार्षद | 6 | छः | कण्णा पति पंकज माली | निर्दलीय |
| 8 | | पार्षद | 7 | सात | अल्पना मालेचा पिता बाबुलाल जी मालेचा | निर्दलीय |
| 9 | | पार्षद | 8 | आठ | सुरेश - मदनलाल सौलंकी | भारतीय जनता पार्टी |
| 10 | | पार्षद | 9 | नौ | प्रकाश - शिवलाल जोशी | भारतीय जनता पार्टी |
| 11 | | पार्षद | 10 | दस | अभिषेक - राधेश्याम मुजावदिया | भारतीय जनता पार्टी |
| 12 | | पार्षद | 11 | ग्यारह | “नजमा बी W/o वहीदखॉ” | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
| 13 | | पार्षद | 12 | बारह | मनोज कुमार S/o सीताराम फणसे | भारतीय जनता पार्टी |
| 14 | | पार्षद | 13 | तेरह | लीलावती - कमलेश राठौर | भारतीय जनता पार्टी |
| 15 | | पार्षद | 14 | चौदह | अरविन्द सोनी - सुरेशचन्द्र सोनी | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
| 16 | | पार्षद | 15 | पन्द्रह | देवीलाल - गणपतलाल माली | भारतीय जनता पार्टी |

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(गिरीश शर्मा)

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1566.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्द्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद्, नगरी, जिला मन्दासौर के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :-

| क्रमांक | नगर परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित | पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद | वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु अंकों में शब्दों में | निर्वाचित व्यक्ति का नाम | दल से सम्बद्धता | |
|---------|---|----------------------------------|---|--------------------------|---|-----------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |
| 1 | नगर परिषद्, नगरी, जिला मन्दासौर. | अध्यक्ष | - | - | रविशंकर सोनी (चाचू) पिता रमेश कुमार. | निर्दलीय |
| 2 | | पार्षद | 1 | एक | कैलाशबाई मोतीलाल पटेल | भारतीय जनता पार्टी |
| 3 | | पार्षद | 2 | दो | श्रीमती संजुबाला पति चन्द्रशेखर (धाकड़) | भारतीय जनता पार्टी |
| 4 | | पार्षद | 3 | तीन | देवीलाल S/o गोवर्धनलाल धाकड़ | भारतीय जनता पार्टी |
| 5 | | पार्षद | 4 | चार | प्रेमलता पती विनोद धाकड़ | भारतीय जनता पार्टी |
| 6 | | पार्षद | 5 | पांच | अंगुरबाला प्रजापत | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
| 7 | | पार्षद | 6 | छः | दिलीप धाकड़ | भारतीय जनता पार्टी |
| 8 | | पार्षद | 7 | सात | मंगला पति मुकेश टेलर | भारतीय जनता पार्टी |
| 9 | | पार्षद | 8 | आठ | शेर मोहम्मद S/o बाबू | निर्दलीय |
| 10 | | पार्षद | 9 | नौ | सलीम पिता खाजू | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
| 11 | | पार्षद | 10 | दस | पिन्टुलाल टेलर | इंडियन नेशनल कांग्रेस |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|-----|------------------------------------|--------|-----|---------|--|-----------------------|
| 12 | नगर परिषद्, नगरी, जिला मन्दसौर. | पार्षद | 11 | ग्यारह | गायत्री बाई धाकड़ (अटोलिया)W/o मुकेश अटोलिया. | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
| 13 | | पार्षद | 12 | बारह | प्रदिप कुमार S/o रामचन्द्र बग्गड़ | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
| 14 | | पार्षद | 13 | तेरह | श्रीमती शिवकैलाश पति जगदीश | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
| 15 | | पार्षद | 14 | चौदह | कंचनबाई रामेश्वर अटोलिया | भारतीय जनता पार्टी |
| 16 | | पार्षद | 15 | पन्द्रह | गोपाल दाईमा | निर्दलीय |

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(गिरीश शर्मा)

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1567.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद्, सीतामऊ, जिला मन्दसौर के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :—

| क्रमांक | नगर परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित | पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद | वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु अंकों में शब्दों में | निर्वाचित व्यक्ति का नाम | दल से सम्बद्धता | |
|---------|---|----------------------------------|---|--------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1 | नगर परिषद्, सीतामऊ, जिला मन्दसौर. | अध्यक्ष | - | - | हंसा राजेश गिरोठिया | भारतीय जनता पार्टी |
| 2 | | पार्षद | 1 | एक | शांतिबाई - दिनेश वर्मा | भारतीय जनता पार्टी |
| 3 | | पार्षद | 2 | दो | सुमीत रावत | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
| 4 | | पार्षद | 3 | तीन | श्रीमति सुमीत्रा पूरणदास बैरागी | भारतीय जनता पार्टी |
| 5 | | पार्षद | 4 | चार | सीमा राजेश पालिवाल | भारतीय जनता पार्टी |
| 6 | | पार्षद | 5 | पांच | आमनाबी शेख | भारतीय जनता पार्टी |
| 7 | | पार्षद | 6 | छः | निर्मल साखला | निर्दलीय |
| 8 | | पार्षद | 7 | सात | प्रिती राव | निर्दलीय |
| 9 | | पार्षद | 8 | आठ | जाफ़ीर शाह | निर्दलीय |
| 10 | | पार्षद | 9 | नौ | रेखा - विनोद माली | भारतीय जनता पार्टी |
| 11 | | पार्षद | 10 | दस | जाहीदाबी शेख | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
| 12 | | पार्षद | 11 | ग्यारह | माँगीलाल चावडा (बन्दु चावडा) | भारतीय जनता पार्टी |
| 13 | | पार्षद | 12 | बारह | नवीन दिवेदी | भारतीय जनता पार्टी |
| 14 | | पार्षद | 13 | तेरह | प्रहलाद सगवालिया | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
| 15 | | पार्षद | 14 | चौदह | कविता भम्भोरिया | भारतीय जनता पार्टी |
| 16 | | पार्षद | 15 | पन्द्रह | शांतिलाल - मांगीलाल डबकरा | भारतीय जनता पार्टी |

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(गिरीश शर्मा)

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1568.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद्, नारायणगढ़, जिला मन्दासौर के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :—

| क्रमांक | नगर परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित | पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद | वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु अंकों में शब्दों में | निर्वाचित व्यक्ति का नाम | दल से सम्बद्धता | |
|---------|---|----------------------------------|---|--------------------------|------------------------------|-----------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1 | नगर परिषद्, नारायणगढ़, जिला मन्दासौर. | अध्यक्ष | - | - | जितेन्द्र जाट | भारतीय जनता पार्टी |
| 2 | | पार्षद | 1 | एक | ज्योतिकुंवर दशरथसिंह चौहान | भारतीय जनता पार्टी |
| 3 | | पार्षद | 2 | दो | दिलीप पाटीदार | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
| 4 | | पार्षद | 3 | तीन | कमलाबाई पाटीदार | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
| 5 | | पार्षद | 4 | चार | शैतानसिंह चौहान | भारतीय जनता पार्टी |
| 6 | | पार्षद | 5 | पांच | गीताबाई विनोदकुमार गोयल | भारतीय जनता पार्टी |
| 7 | | पार्षद | 6 | छः | ललिता सुरेशचन्द्र कुमावत | भारतीय जनता पार्टी |
| 8 | | पार्षद | 7 | सात | सुनील दिवाणिया | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
| 9 | | पार्षद | 8 | आठ | राजु जाट | निर्दलीय |
| 10 | | पार्षद | 9 | नौ | दिलीपकुमार रायल | निर्दलीय |
| 11 | | पार्षद | 10 | दस | नेमीचंद डाका | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
| 12 | | पार्षद | 11 | ग्यारह | ममता पवन बोराना | भारतीय जनता पार्टी |
| 13 | | पार्षद | 12 | बारह | कलाबाई शंकरलाल ग्वाला | निर्दलीय |
| 14 | | पार्षद | 13 | तेरह | श्रीमती आशाबाई मांगीलाल यादव | निर्दलीय |
| 15 | | पार्षद | 14 | चौदह | दिलीप यादव | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
| 16 | | पार्षद | 15 | पन्द्रह | कविता सुनीलकुमार परिहार | निर्दलीय |

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(गिरीश शर्मा)

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1569.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद्, शामगढ़, जिला मन्दासौर के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :—

| क्रमांक | नगर परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित | पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद | वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु अंकों में शब्दों में | निर्वाचित व्यक्ति का नाम | दल से सम्बद्धता | |
|---------|---|----------------------------------|---|--------------------------|-----------------|--------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1 | नगर परिषद्, शामगढ़, जिला मन्दासौर. | अध्यक्ष | - | - | अर्जुन सोनी | भारतीय जनता पार्टी |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|-----|--------------------------------------|--------|-----|---------|---|-----------------------|
| 2 | नगर परिषद्, शामगढ़, जिला मन्दसौर. | पार्षद | 1 | एक | गोपी चन्द्र खाती | भारतीय जनता पार्टी |
| 3 | | पार्षद | 2 | दो | दीपक - नारायणजी जांगडे | भारतीय जनता पार्टी |
| 4 | | पार्षद | 3 | तीन | मंजुला - निर्मल कुमार | भारतीय जनता पार्टी |
| 5 | | पार्षद | 4 | चार | सुरेश नरभेपुरिया | भारतीय जनता पार्टी |
| 6 | | पार्षद | 5 | पांच | महेन्द्र कालरा (काली) | भारतीय जनता पार्टी |
| 7 | | पार्षद | 6 | छः | हेमलता कृष्णकांत रत्नावत | भारतीय जनता पार्टी |
| 8 | | पार्षद | 7 | सात | साधना - जगदीश मेहता | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
| 9 | | पार्षद | 8 | आठ | मंगला - धीरज संघवी | भारतीय जनता पार्टी |
| 10 | | पार्षद | 9 | नौ | सुनील धनोतिया (राजु) | भारतीय जनता पार्टी |
| 11 | | पार्षद | 10 | दस | माया राजेश राठौर | भारतीय जनता पार्टी |
| 12 | | पार्षद | 11 | ग्यारह | दिलशाद पति बबलुद्दीन मेव | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
| 13 | | पार्षद | 12 | बारह | अनिल खन्ना (नीलू) | भारतीय जनता पार्टी |
| 14 | | पार्षद | 13 | तेरह | मोहम्मद रईस अब्बासी पिता अब्दुल सत्तार अब्बासी | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
| 15 | | पार्षद | 14 | चौदह | सविता पति राकेश कुमार सतसंगी | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
| 16 | | पार्षद | 15 | पन्द्रह | निकहत फारूख एहमद | इंडियन नेशनल कांग्रेस |

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(गिरीश शर्मा)

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1570.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद्, भानपुरा, जिला मन्दसौर के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :-

| क्रमांक | नगर परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित | पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद | वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु अंकों में | शब्दों में | निर्वाचित व्यक्ति का नाम | दल से सम्बद्धता |
|---------|---|----------------------------------|--|------------|-----------------------------------|-----------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1 | नगर परिषद्, भानपुरा, जिला मन्दसौर. | अध्यक्ष | - | - | श्रीमती रेखा पति अभिषेक मांदालिया | भारतीय जनता पार्टी |
| 2 | | पार्षद | 1 | एक | राकेश पिता फूलचंद माली | भारतीय जनता पार्टी |
| 3 | | पार्षद | 2 | दो | अनिता सुभाष भूटानी | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
| 4 | | पार्षद | 3 | तीन | संजय बम्बोरिया | भारतीय जनता पार्टी |
| 5 | | पार्षद | 4 | चार | कविता अनिल कुमार राठौर | भारतीय जनता पार्टी |
| 6 | | पार्षद | 5 | पांच | इरफान हुसैन - अलताफ हुसैन | भारतीय जनता पार्टी |
| 7 | | पार्षद | 6 | छः | रीयाज न्याज मो. | भारतीय जनता पार्टी |
| 8 | | पार्षद | 7 | सात | फरीदा अब्बास अली | भारतीय जनता पार्टी |
| 9 | | पार्षद | 8 | आठ | उदयराम गुलाब जी | भारतीय जनता पार्टी |
| 10 | | पार्षद | 9 | नौ | श्यामाबाई उर्फ सीताबाई | निर्दलीय |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|-----|---------------------------------------|--------|-----|---------|---------------------------------------|-----------------------|
| 11 | नगर परिषद्, भानपुरा, जिला मन्दसौर. | पार्षद | 10 | दस | अजय तिवारी | भारतीय जनता पार्टी |
| 12 | | पार्षद | 11 | ग्यारह | मंगला पति गोपाल विश्वकर्मा | भारतीय जनता पार्टी |
| 13 | | पार्षद | 12 | बारह | संतोषदेवी पति श्यामलालजी सोनी भानपुरा | निर्दलीय |
| 14 | | पार्षद | 13 | तेरह | निलेश खटोड़ मनोज खटोड़ | भारतीय जनता पार्टी |
| 15 | | पार्षद | 14 | चौदह | हरिकृष्ण मरमट | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
| 16 | | पार्षद | 15 | पन्द्रह | डिम्पल भाना | इंडियन नेशनल कांग्रेस |

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(गिरीश शर्मा)

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1571.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्द्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद्, पिपल्यामंडी, जिला मन्दसौर के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :—

| क्रमांक | नगर परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित | पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद | वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु अंकों में शब्दों में | निर्वाचित व्यक्ति का नाम | दल से सम्बद्धता | |
|---------|---|----------------------------------|---|--------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1 | नगर परिषद्, पिपल्यामंडी, जिला मन्दसौर. | अध्यक्ष | - | - | राजेन्द्र कुमार शर्मा (राजु पंडित) | निर्दलीय |
| 2 | | पार्षद | 1 | एक | राधाबाई धनगर | निर्दलीय |
| 3 | | पार्षद | 2 | दो | पुष्पा नरेन्द्र पंवार | निर्दलीय |
| 4 | | पार्षद | 3 | तीन | कमल तिवारी (टोनू तिवारी) | निर्दलीय |
| 5 | | पार्षद | 4 | चार | पवनकुंवर भारतसिंहजी | निर्दलीय |
| 6 | | पार्षद | 5 | पांच | कोशल्या मुकेश भंदानिया | भारतीय जनता पार्टी |
| 7 | | पार्षद | 6 | छः | भंवरलाल राठौर | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
| 8 | | पार्षद | 7 | सात | सुनिल कुमार राजमल देवरिया | भारतीय जनता पार्टी |
| 9 | | पार्षद | 8 | आठ | अशोक कोहली | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
| 10 | | पार्षद | 9 | नौ | बिलकीस बी बाबू मन्सुरी | निर्दलीय |
| 11 | | पार्षद | 10 | दस | मन्नालाल राठौर (माली) | निर्दलीय |
| 12 | | पार्षद | 11 | ग्यारह | अनिल पाठक | भारतीय जनता पार्टी |
| 13 | | पार्षद | 12 | बारह | “अनिसा बी हुसैन खॉ पठान” | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
| 14 | | पार्षद | 13 | तेरह | सचिन तिवारी “टोटू” | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
| 15 | | पार्षद | 14 | चौदह | विष्णुबाला कन्हैयालाल कराडा | भारतीय जनता पार्टी |
| 16 | | पार्षद | 15 | पन्द्रह | कुसुम सुनिल गर्ग | इंडियन नेशनल कांग्रेस |

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(गिरीश शर्मा)

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1572.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद्, गरोठ, जिला मन्दसौर के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :—

| क्रमांक | नगर परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित | पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद | वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु अंकों में | शब्दों में | निर्वाचित व्यक्ति का नाम | दल से सम्बद्धता |
|---------|---|----------------------------------|--|------------|----------------------------|-----------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1 | नगर परिषद्, गरोठ, जिला मन्दसौर. | अध्यक्ष | - | - | अनोख दिनेश कुमार पाटीदार | भारतीय जनता पार्टी |
| 2 | | पार्षद | 1 | एक | धर्मेन्द्र शर्मा (धर्मा) | भारतीय जनता पार्टी |
| 3 | | पार्षद | 2 | दो | सरिता सेठिया | भारतीय जनता पार्टी |
| 4 | | पार्षद | 3 | तीन | प्रकाश डिस्को | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
| 5 | | पार्षद | 4 | चार | प्रमीला प्रकाशकान्द पहलवान | भारतीय जनता पार्टी |
| 6 | | पार्षद | 5 | पांच | कुसुमबाई भगत | भारतीय जनता पार्टी |
| 7 | | पार्षद | 6 | छः | सोहनबाई बागरी | भारतीय जनता पार्टी |
| 8 | | पार्षद | 7 | सात | रेखाबाई गोस्वामी | भारतीय जनता पार्टी |
| 9 | | पार्षद | 8 | आठ | ओमप्रकाश मोदी | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
| 10 | | पार्षद | 9 | नौ | कैलाशीबाई रामगोपाल ननेरा | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
| 11 | | पार्षद | 10 | दस | शिवशंकर माली | भारतीय जनता पार्टी |
| 12 | | पार्षद | 11 | ग्यारह | मन्जु हरिओम धनोतिया | निर्दलीय |
| 13 | | पार्षद | 12 | बारह | गोपाल परिहार | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
| 14 | | पार्षद | 13 | तेरह | ललित चन्देल | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
| 15 | | पार्षद | 14 | चौदह | मंजुला गंगाराम पाण्डेय | भारतीय जनता पार्टी |
| 16 | | पार्षद | 15 | पन्द्रह | आनंद ग्वाला | भारतीय जनता पार्टी |

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(गिरीश शर्मा)

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1573.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद्, बिरसिंहपुर, जिला सतना के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :—

| क्रमांक | नगर परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित | पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद | वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु अंकों में | शब्दों में | निर्वाचित व्यक्ति का नाम | दल से सम्बद्धता |
|---------|---|----------------------------------|--|------------|--------------------------|--------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1 | नगर परिषद्, बिरसिंहपुर, जिला सतना. | अध्यक्ष | - | - | धनीराम | भारतीय जनता पार्टी |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|-----|-----|--------|-----|---------|---------------------------|-----------------------|
| 2 | | पार्षद | 1 | एक | समीन मजीद खान | बहुजन समाज पार्टी |
| 3 | | पार्षद | 2 | दो | राजकुमारी वर्मा | बहुजन समाज पार्टी |
| 4 | | पार्षद | 3 | तीन | महेन्द्र माली मख्खन | निर्दलीय |
| 5 | | पार्षद | 4 | चार | राजेन्द्र कुमार साकेत | बहुजन समाज पार्टी |
| 6 | | पार्षद | 5 | पांच | मजीद खान | बहुजन समाज पार्टी |
| 7 | | पार्षद | 6 | छः | रेखा मिश्रा | भारतीय जनता पार्टी |
| 8 | | पार्षद | 7 | सात | मुकेश कुमार गौतम (मुन्नु) | भारतीय जनता पार्टी |
| 9 | | पार्षद | 8 | आठ | नसीम बानो नासिर | निर्दलीय |
| 10 | | पार्षद | 9 | नौ | रानी मोहम्मद खादिम | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
| 11 | | पार्षद | 10 | दस | गुलाबकली शर्मा | भारतीय जनता पार्टी |
| 12 | | पार्षद | 11 | ग्यारह | राजकली वर्मा | बहुजन समाज पार्टी |
| 13 | | पार्षद | 12 | बारह | रामानुज गौतम (सद्दन) | भारतीय जनता पार्टी |
| 14 | | पार्षद | 13 | तेरह | पवित्रा सेन | भारतीय जनता पार्टी |
| 15 | | पार्षद | 14 | चौदह | मो. शफीक | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
| 16 | | पार्षद | 15 | पन्द्रह | कल्याणदास साकेत | इंडियन नेशनल कांग्रेस |

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(गिरीश शर्मा)

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1574.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद्, उचेहरा, जिला सतना के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :-

| क्रमांक | नगर परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित | पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद | वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु अंकों में शब्दों में | निर्वाचित व्यक्ति का नाम | दल से सम्बद्धता | |
|---------|---|----------------------------------|---|--------------------------|--|-----------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1 | नगर परिषद्, उचेहरा, जिला सतना. | अध्यक्ष | - | - | श्यामकली चौधरी | भारतीय जनता पार्टी |
| 2 | | पार्षद | 1 | एक | राजकिशोर वर्मन पिता विक्रम प्रसाद वर्मन | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
| 3 | | पार्षद | 2 | दो | हरिसुन बेगम पति मो. रसीद शाह | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
| 4 | | पार्षद | 3 | तीन | लक्ष्मीदेवी पत्नी जियोलाल | बहुजन समाज पार्टी |
| 5 | | पार्षद | 4 | चार | रेखा पत्नी रवि चौधरी | भारतीय जनता पार्टी |
| 6 | | पार्षद | 5 | पांच | राजाराम ताम्रकार पिता बसोरीलाल ताम्रकार (नाती) | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
| 7 | | पार्षद | 6 | छः | गोरेलाल ताम्रकार | निर्दलीय |
| 8 | | पार्षद | 7 | सात | अनीता चौरसिया | भारतीय जनता पार्टी |
| 9 | | पार्षद | 8 | आठ | मदनलाल चौधरी | भारतीय जनता पार्टी |
| 10 | | पार्षद | 9 | नौ | नीतू | भारतीय जनता पार्टी |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|-----|-----|--------|-----|---------|---------------------------------|-----------------------|
| 11 | | पार्षद | 10 | दस | रामेश्वर दयाल उर्फ रामजी शुक्ला | निर्दलीय |
| 12 | | पार्षद | 11 | ग्यारह | सुधा दीदी शर्मा | निर्दलीय |
| 13 | | पार्षद | 12 | बारह | अर्चना ताम्रकार | भारतीय जनता पार्टी |
| 14 | | पार्षद | 13 | तेरह | नौसाद अली | भारतीय जनता पार्टी |
| 15 | | पार्षद | 14 | चौदह | कमलेश बेलदार | बहुजन समाज पार्टी |
| 16 | | पार्षद | 15 | पन्द्रह | संध्या - राजेन्द्र ताम्रकार | इंडियन नेशनल कांग्रेस |

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(गिरीश शर्मा)

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1575.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद्, चित्रकूट, जिला सतना के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :-

| क्रमांक | नगर परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित | पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद | वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु अंकों में | शब्दों में | निर्वाचित व्यक्ति का नाम | दल से सम्बद्धता |
|---------|---|----------------------------------|--|------------|--------------------------|-----------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1 | नगर परिषद्, चित्रकूट, जिला सतना. | अध्यक्ष | - | - | प्राची चतुर्वेदी | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
| 2 | | पार्षद | 1 | एक | किरण त्रिपाठी | भारतीय जनता पार्टी |
| 3 | | पार्षद | 2 | दो | मधु गुप्ता | भारतीय जनता पार्टी |
| 4 | | पार्षद | 3 | तीन | गुड्डन देवी रैदास | निर्दलीय |
| 5 | | पार्षद | 4 | चार | गुलाब सिंह यादव | निर्दलीय |
| 6 | | पार्षद | 5 | पांच | चुनबाद निषाद | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
| 7 | | पार्षद | 6 | छः | शांति देवी | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
| 8 | | पार्षद | 7 | सात | बाबू | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
| 9 | | पार्षद | 8 | आठ | कल्लू प्रसाद | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
| 10 | | पार्षद | 9 | नौ | विनीता शिवहरे | भारतीय जनता पार्टी |
| 11 | | पार्षद | 10 | दस | संतोष कुमार | निर्दलीय |
| 12 | | पार्षद | 11 | ग्यारह | श्रीमती शोभा देवी | समाजवादी पार्टी |
| 13 | | पार्षद | 12 | बारह | गोल्ली केवट | भारतीय जनता पार्टी |
| 14 | | पार्षद | 13 | तेरह | अशोक कुमार | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
| 15 | | पार्षद | 14 | चौदह | कृष्णमोहन शर्मा | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
| 16 | | पार्षद | 15 | पन्द्रह | मन्नु बाई | निर्दलीय |

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(गिरीश शर्मा)

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1576.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद्, नागौद, जिला सतना के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :—

| क्रमांक | नगर परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित | पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद | वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु अंकों में शब्दों में | निर्वाचित व्यक्ति का नाम | दल से सम्बद्धता |
|---------|---|----------------------------------|---|--------------------------|-----------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) (5) | (6) | (7) |
| 1 | नगर परिषद्, नागौद, जिला सतना. | अध्यक्ष | - - | उदय प्रताप सिंह | भारतीय जनता पार्टी |
| 2 | | पार्षद | 1 एक | सीमा वीरन चौधरी | बहुजन समाज पार्टी |
| 3 | | पार्षद | 2 दो | धर्मेन्द्र सिंह "पम्पू" | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
| 4 | | पार्षद | 3 तीन | गीता बाई बुल्लू दिवेदी | भारतीय जनता पार्टी |
| 5 | | पार्षद | 4 चार | श्रीमती आरती चौरसिया | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
| 6 | | पार्षद | 5 पांच | श्रीमती कमला (गुड़िया) | निर्दलीय |
| 7 | | पार्षद | 6 छः | मो. उस्मान | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
| 8 | | पार्षद | 7 सात | इन्द्रजीत गर्ग | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
| 9 | | पार्षद | 8 आठ | अंकिता मुन्ना बीज | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
| 10 | | पार्षद | 9 नौ | बंशरूप तिवारी (मिट्टू) | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
| 11 | | पार्षद | 10 दस | संतोष कुमार सोनी | भारतीय जनता पार्टी |
| 12 | | पार्षद | 11 ग्यारह | उमाशरण यादव | निर्दलीय |
| 13 | | पार्षद | 12 बारह | अनीता ध्रुव व्यास | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
| 14 | | पार्षद | 13 तेरह | नूरजहां सिराजुद्दीन | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
| 15 | | पार्षद | 14 चौदह | बाबूलाल चुहटेल | निर्दलीय |
| 16 | | पार्षद | 15 पन्द्रह | रानी चौधरी | भारतीय जनता पार्टी |

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(गिरीश शर्मा)

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1577.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद्, रामपुर बघेलान, जिला सतना के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :—

| क्रमांक | नगर परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित | पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद | वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु अंकों में शब्दों में | निर्वाचित व्यक्ति का नाम | दल से सम्बद्धता |
|---------|---|----------------------------------|---|--------------------------|--------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) (5) | (6) | (7) |
| 1 | नगर परिषद्, रामपुर बघेलान, जिला सतना. | अध्यक्ष | - - | विक्रम सिंह (विक्की) | भारतीय जनता पार्टी |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|-----|-----|--------|-----|---------|---------------------------|--------------------|
| 2 | | पार्षद | 1 | एक | ध्रुवेश्वर सिंह | भारतीय जनता पार्टी |
| 3 | | पार्षद | 2 | दो | दिनेश सिंह | निर्दलीय |
| 4 | | पार्षद | 3 | तीन | कमलेश प्रसाद साकेत | भारतीय जनता पार्टी |
| 5 | | पार्षद | 4 | चार | शोभा बाई कोल उर्फ शोभाबाई | भारतीय जनता पार्टी |
| 6 | | पार्षद | 5 | पांच | निशा विश्वकर्मा | भारतीय जनता पार्टी |
| 7 | | पार्षद | 6 | छः | सुशीला कोल | भारतीय जनता पार्टी |
| 8 | | पार्षद | 7 | सात | रामायण सिंह | भारतीय जनता पार्टी |
| 9 | | पार्षद | 8 | आठ | सन्तोष कुमार गुप्ता | निर्दलीय |
| 10 | | पार्षद | 9 | नौ | विष्णुधर भट्ट (भैया जी) | भारतीय जनता पार्टी |
| 11 | | पार्षद | 10 | दस | अर्चना प्रदीप त्रिपाठी | निर्दलीय |
| 12 | | पार्षद | 11 | ग्यारह | सुदर्शन कोल | निर्दलीय |
| 13 | | पार्षद | 12 | बारह | तेरसिया बाई प्रजापति | भारतीय जनता पार्टी |
| 14 | | पार्षद | 13 | तेरह | कमलेश कचेर (के. के.) | भारतीय जनता पार्टी |
| 15 | | पार्षद | 14 | चौदह | मुन्नु सिंह उर्फ दादू | भारतीय जनता पार्टी |
| 16 | | पार्षद | 15 | पन्द्रह | नीतू दिलीप सोनी | भारतीय जनता पार्टी |

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(गिरीश शर्मा)

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1578.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद्, कोठी, जिला सतना के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :—

| क्रमांक | नगर परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित | पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद | वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु अंकों में | शब्दों में | निर्वाचित व्यक्ति का नाम | दल से सम्बद्धता |
|---------|---|----------------------------------|--|------------|--------------------------|-----------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1 | नगर परिषद्, कोठी, जिला सतना. | अध्यक्ष | - | - | राकेश कुमार कोरी | भारतीय जनता पार्टी |
| 2 | | पार्षद | 1 | एक | कलवतिया कोल | बहुजन समाज पार्टी |
| 3 | | पार्षद | 2 | दो | अम्बिका देवी (पिंकी) | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
| 4 | | पार्षद | 3 | तीन | राजेश बाल्मीक | निर्दलीय |
| 5 | | पार्षद | 4 | चार | शबनम इकराम | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
| 6 | | पार्षद | 5 | पांच | विजय कुमार दिवेदी | भारतीय जनता पार्टी |
| 7 | | पार्षद | 6 | छः | बालकिशोर | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
| 8 | | पार्षद | 7 | सात | किरण मिश्रा | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
| 9 | | पार्षद | 8 | आठ | साईदा इसरार | निर्दलीय |
| 10 | | पार्षद | 9 | नौ | सुशीला (रामकुमार) गुप्ता | बहुजन समाज पार्टी |
| 11 | | पार्षद | 10 | दस | कुसुम कुंज बिहारी बारी | भारतीय जनता पार्टी |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|-----|-----|--------|-----|---------|--------------------|--------------------|
| 12 | | पार्षद | 11 | ग्यारह | ज्ञानवती कोरी | भारतीय जनता पार्टी |
| 13 | | पार्षद | 12 | बारह | संतोष - दादू | बहुजन समाज पार्टी |
| 14 | | पार्षद | 13 | तेरह | सुशीला पति कमलेश | भारतीय जनता पार्टी |
| 15 | | पार्षद | 14 | चौदह | मिथुन कुमार शर्मा | भारतीय जनता पार्टी |
| 16 | | पार्षद | 15 | पन्द्रह | प्रमोद सिंह (बेटा) | भारतीय जनता पार्टी |

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(गिरीश शर्मा)

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1579.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद्, न्यू रामनगर, जिला सतना के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :-

| क्रमांक | नगर परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित | पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद | वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु अंकों में | | निर्वाचित व्यक्ति का नाम | दल से सम्बद्धता |
|---------|---|----------------------------------|--|---------|--|-------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1 | नगर परिषद्, न्यू रामनगर, जिला सतना. | अध्यक्ष | - | - | रामसुशील पटेल 'सुशील भाई' | भारतीय जनता पार्टी |
| 2 | | पार्षद | 1 | एक | सुमन कमलेश्वर पयासी | भारतीय जनता पार्टी |
| 3 | | पार्षद | 2 | दो | अशोक कुमार गुप्ता 'सेठ जी' | भारतीय जनता पार्टी |
| 4 | | पार्षद | 3 | तीन | ममता दिनेश पटेल | निर्दलीय |
| 5 | | पार्षद | 4 | चार | अर्चना देवी सिंह गोंड पति गंगा सिंह गोंड | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
| 6 | | पार्षद | 5 | पांच | भूपेन्द्र मिश्रा | भारतीय जनता पार्टी |
| 7 | | पार्षद | 6 | छः | शिराजुद्दीन 'रज्जन' | भारतीय जनता पार्टी |
| 8 | | पार्षद | 7 | सात | विजय कुमार गुप्ता | भारतीय जनता पार्टी |
| 9 | | पार्षद | 8 | आठ | सीमा वर्मा पति राजेन्द्र वर्मा | निर्दलीय |
| 10 | | पार्षद | 9 | नौ | दुर्गा प्रसाद पिता मोलई प्रसाद | बहुजन समाज पार्टी |
| 11 | | पार्षद | 10 | दस | सरोज बुनकर | गोंडवाना गणतंत्र पार्टी |
| 12 | | पार्षद | 11 | ग्यारह | मुन्नी बाई कोल | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
| 13 | | पार्षद | 12 | बारह | राजेश कुमार जयसवाल | भारतीय जनता पार्टी |
| 14 | | पार्षद | 13 | तेरह | पैसु शर्मा पति स्व. मधुवन शर्मा | निर्दलीय |
| 15 | | पार्षद | 14 | चौदह | ममता अजय दिवेदी | भारतीय जनता पार्टी |
| 16 | | पार्षद | 15 | पन्द्रह | भाई राममिलन कोल | भारतीय जनता पार्टी |

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(गिरीश शर्मा)

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1580.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद्, अमरपाटन, जिला सतना के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :—

| क्रमांक | नगर परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित | पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद | वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु अंकों में | क्रमांक केवल शब्दों में | निर्वाचित व्यक्ति का नाम | दल से सम्बद्धता |
|---------|---|----------------------------------|--|----------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1 | नगर परिषद्, अमरपाटन, जिला सतना. | अध्यक्ष | - | - | गायत्री देवी दिनेश शुक्ला | भारतीय जनता पार्टी |
| 2 | | पार्षद | 1 | एक | राकेश ताम्रकार (राजू भाई) | भारतीय जनता पार्टी |
| 3 | | पार्षद | 2 | दो | सीमा सिंह | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
| 4 | | पार्षद | 3 | तीन | कुमारे कोल | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
| 5 | | पार्षद | 4 | चार | प्रियंका रामराज पटेल | निर्दलीय |
| 6 | | पार्षद | 5 | पांच | दुर्गा बंसल | बहुजन समाज पार्टी |
| 7 | | पार्षद | 6 | छः | दीपक चौधरी | भारतीय जनता पार्टी |
| 8 | | पार्षद | 7 | सात | माखन सिंह | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
| 9 | | पार्षद | 8 | आठ | सुनीता साकेत | निर्दलीय |
| 10 | | पार्षद | 9 | नौ | कल्पना अजय सनाह्य | निर्दलीय |
| 11 | | पार्षद | 10 | दस | उमा देवी | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
| 12 | | पार्षद | 11 | ग्यारह | चिंतामणी कुशवाहा | भारतीय जनता पार्टी |
| 13 | | पार्षद | 12 | बारह | नानी सबीना | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
| 14 | | पार्षद | 13 | तेरह | रैहान रजवी (एडवोकेट) | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
| 15 | | पार्षद | 14 | चौदह | शैल लल्लूलाल सोनी | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
| 16 | | पार्षद | 15 | पन्द्रह | रामहित पटेल पिता रामखेलामन पटेल | भारतीय जनता पार्टी |

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(गिरीश शर्मा)

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1581.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद्, जैतवारा, जिला सतना के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :—

| क्रमांक | नगर परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित | पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद | वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु अंकों में | क्रमांक केवल शब्दों में | निर्वाचित व्यक्ति का नाम | दल से सम्बद्धता |
|---------|---|----------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|--------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1 | नगर परिषद्, जैतवारा, जिला सतना. | अध्यक्ष | - | - | अजय कुमार डोहर उर्फ मुन्ना | भारतीय जनता पार्टी |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|-----|-----|--------|-----|---------|-----------------------------|-----------------------|
| 2 | | पार्षद | 1 | एक | मित्तू देवी श्रवण कुमार | निर्दलीय |
| 3 | | पार्षद | 2 | दो | संध्या अतुल त्रिपाठी | निर्दलीय |
| 4 | | पार्षद | 3 | तीन | लीला भाईलाल | भारतीय जनता पार्टी |
| 5 | | पार्षद | 4 | चार | नेहा | भारतीय जनता पार्टी |
| 6 | | पार्षद | 5 | पांच | सुन्नू डोहर | भारतीय जनता पार्टी |
| 7 | | पार्षद | 6 | छः | साधना संतोष कुमार गौतम | भारतीय जनता पार्टी |
| 8 | | पार्षद | 7 | सात | अपसाना बेगम | बहुजन समाज पार्टी |
| 9 | | पार्षद | 8 | आठ | ब्रजेश पयासी | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
| 10 | | पार्षद | 9 | नौ | राकेश कुमार सोनी | भारतीय जनता पार्टी |
| 11 | | पार्षद | 10 | दस | सौरभ पोरवाल | निर्दलीय |
| 12 | | पार्षद | 11 | ग्यारह | गुड्डू उर्फ राजेश सेन | भारतीय जनता पार्टी |
| 13 | | पार्षद | 12 | बारह | रामहित डोहर | भारतीय जनता पार्टी |
| 14 | | पार्षद | 13 | तेरह | पिन्टू डोहर S/o गयादीन डोहर | निर्दलीय |
| 15 | | पार्षद | 14 | चौदह | मंजू दाहिया | भारतीय जनता पार्टी |
| 16 | | पार्षद | 15 | पन्द्रह | संतोष कुमार द्विवेदी | निर्दलीय |

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(गिरीश शर्मा)

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.